



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 262) पटना, शुक्रवार, 1 अप्रील 2016

सं0 03/AMRUT/12-03/2015—596
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

28 मार्च 2016

विषय:— अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत हाजीपुर, बक्सर, आरा, जहानाबाद, छपरा, बगहा, मोतिहारी, सिवान एवं औरंगाबाद नगर निकायों के जलापूर्ति योजना फेज-I हेतु कुल 35650.02 लाख रू0 (तीन अरब छप्पन करोड़ पचास लाख दो हजार रू0) मात्र अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना में राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 26 नगर निकाय आच्छादित हैं। AMRUT योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में योजना को राज्य में लागू किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है। AMRUT योजना के अनुश्रवण हेतु मार्गदर्शिका के कंडिका 10.2 के आलोक में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) गठित है। मार्गदर्शिका के कंडिका 10.3 में DPR का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन करने हेतु प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) गठित है।

2. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु तैयार किये गये State Annual Action Plan (SAAP) पर भारत सरकार के Apex Committee की सहमति प्राप्त है। SAAP के अनुसार पहले चरण में राज्य के 14 नगर निकायों में जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। इनमें से हाजीपुर, बक्सर, आरा, जहानाबाद, छपरा, बगहा, मोतिहारी, सिवान एवं औरंगाबाद नगर निकायों के जलापूर्ति योजना फेज-I के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) को राज्यस्तरीय तकनीकी समिति के अनुशंसा के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) के समक्ष रखा गया। SHPSC द्वारा दिनांक 04.03.16 को विमर्शोपरांत उक्त नौ जलापूर्ति योजना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया। वित्त विभाग के द्वारा 20 करोड़ से अधिक लागत व्यय वाली योजनाओं को राज्य मंत्रिपरिषद से स्वीकृत कराने का परामर्श दिया गया है। उक्त के आलोक में राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 16.03.2016 को सम्पन्न बैठक में मद सं0-22 के रूप में इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. AMRUT योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना के प्राक्कलित राशि का 50% केन्द्र सरकार द्वारा, 30% राज्य सरकार द्वारा और 20% का वहन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जाएगा। जिसका विवरण निम्नवत् है:—

क्र०सं०	योजना का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि	केन्द्रांश की राशि 50%	राज्यांश की राशि 30%	नगर निकाय के अंशदान की राशि 20%
1.	हाजीपुर जलापूर्ति योजना फेज-I	3845.83	1922.915	1153.749	769.166
2.	बक्सर जलापूर्ति योजना फेज-I	2938.05	1469.025	881.415	587.610
3.	आरा जलापूर्ति योजना फेज-I	7441.70	3720.850	2232.510	1488.340
4.	जहानाबाद जलापूर्ति योजना फेज-I	2927.66	1463.830	878.298	585.532
5.	छपरा जलापूर्ति योजना फेज-I	5625.51	2812.755	1687.653	1125.102
6.	बगहा जलापूर्ति योजना फेज-I	2969.53	1484.765	890.859	593.906
7.	मोतिहारी जलापूर्ति योजना फेज-I	3206.69	1603.345	962.007	641.338
8.	सीवान जलापूर्ति योजना फेज-I	3717.95	1858.975	1115.385	743.590
9.	औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज-I	2977.10	1488.550	893.130	595.420
	कुल	35650.02	17852.01	10695.006	7130.004

4. उक्त जलापूर्ति योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद (BRJP) होगी। संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा। राज्यांश मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के बजट प्रावधान से वहन किया जाएगा।

5. AMRUT योजना के अधीन सभी योजनाओं का चयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया गया है तथा इसे संबंधित नगर निकाय के बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति का अनुमोदन प्राप्त है। योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित नगर निकाय द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिया गया है एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी दे दिया गया है।

6. इस योजना के अंतर्गत हाजीपुर, बक्सर, आरा, जहानाबाद, छपरा, बगहा, मोतिहारी, सिवान एवं औरंगाबाद नगर निकाय क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास कर राष्ट्रीय मानक के स्वच्छ पेय जलापूर्ति किया जाना है। इस योजना को अगले 30 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस जलापूर्ति योजना फेज-I के अन्तर्गत संबंधित नगर निकायों के लगभग 1,17,096 परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रावधान है कि योजना पूर्ण होने के उपरान्त संवेदकों द्वारा अगले 5 वर्षों तक इसका रख-रखाव किया जाएगा। उसके बाद नगर निकायों द्वारा संधारण किया जाएगा।

7. हाजीपुर, बक्सर, आरा, जहानाबाद, छपरा, बगहा, मोतिहारी, सिवान एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज-I के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	योजना का नाम	योजना के अधीन किये जाने वाले कार्य का विवरण
1.	हाजीपुर जलापूर्ति योजना फेज-I	9 Nos Tube Wells Rising Main-640 M Storage Reservoirs-2 Nos of 7.62 Lac Gallon Capacity Distribution Pipe Line-63.99 KM HH connection - 9898 Nos SCADA-N0
2.	बक्सर जलापूर्ति योजना फेज-I	5 Nos Tube Wells Rising Main-300 M Storage Reservoirs-3 Nos of 6.5 Lac Gallon Capacity Distribution Pipe Line-56.203 KM HH connection - 6179 Nos SCADA-N0
3.	आरा जलापूर्ति योजना फेज-I	6 Nos Tube Wells Rising Main-3301 M

		Storage Reservoirs-7 Nos of 58 Lac Liter Capacity Distribution Pipe Line-140.472 KM HH connection - 25167 Nos SCADA-N0
4.	जहानाबाद जलापूर्ति योजना फेज-I	4 Nos Tube Wells Rising Main-120 M Storage Reservoirs-2 Nos of 4.50 Lac Gallon Capacity Distribution Pipe Line-37.743 KM HH connection - 15635 Nos SCADA-N0
5.	छपरा जलापूर्ति योजना फेज-I	9 Nos Tube Wells Rising Main-2542 M Storage Reservoirs-4 Nos of 64 Lac Liter Capacity Distribution Pipe Line-74.77 KM HH connection - 16484 Nos SCADA-N0
6.	बगहा जलापूर्ति योजना फेज-I	2 Nos Tube Wells Rising Main-170 M Storage Reservoirs-2 Nos of 6.6 Lac Gallon Capacity Distribution Pipe Line-43.743 KM HH connection - 9855 Nos SCADA-Yes
7.	मोतिहारी जलापूर्ति योजना फेज-I	3 Nos Tube Wells Rising Main-600 M WTP-8MLD Capacity Storage Reservoirs-3 Nos of 5.73 Lac Gallon Capacity Distribution Pipe Line-56.271 KM HH connection - 7428 Nos SCADA-Yes
8.	सीवान जलापूर्ति योजना फेज-I	4 Nos Tube Wells Rising Main-300 M Storage Reservoirs-6 Nos of 44 Lac Liter Capacity Distribution Pipe Line-49.738 KM HH connection - 10668 Nos SCADA-N0
9.	औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज-I	6 Nos Tube Wells Rising Main-6856 M Storage Reservoirs- 4 Nos of 47.50 Lac Liter Capacity Distribution Pipe Line-35.353 KM HH connection - 15782 Nos SCADA-N0

8. अतः अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत हाजीपुर, बक्सर, आरा, जहानाबाद, छपरा, बगहा, मोतिहारी, सिवान एवं औरंगाबाद नगर निकायों के जलापूर्ति योजना फेज-I हेतु कुल 35650.02 लाख रु0 (तीन अरब छप्पन करोड़ पचास लाख दो हजार रु0) मात्र अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/संबंधित नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 262-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>